

5. What do you understand by term structure of interest rates ? Explain the expectations theory of term structure of interest rates. **15**

आपका ब्याज दरों के अवधि ढाँचा से क्या अभिप्राय है ? ब्याज दरों के अवधि ढाँचा के प्रत्याशा सिद्धान्त का वर्णन कीजिए ।

Unit III

इकाई III

6. Explain the recent innovative banking trends in Indian banking system. **15**

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वर्तमान में हुई प्रवर्तक या नवीन बैंकिंग प्रणाली का वर्णन कीजिए ।

7. What are Non-Banking Financial Companies ? Explain the successive reforms in Non-banking Financial Companies in India. **15**

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ क्या हैं ? भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में हुए क्रमिक सुधारों का वर्णन कीजिए ।

Roll No.

Exam Code : M-21

Subject Code—52225

B. A. EXAMINATION

(Batch 2018 Onwards) (Main)

(Fifth Semester)

ECONOMICS

BECO-501

Money and Banking

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 80

Note : Attempt *Five* questions in all. Q. No. 1 is compulsory which is of 20 marks. Remaining all questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न क्र. 1 अनिवार्य है, जो कि 20 अंक का है शेष सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. Short Answer Type Questions :

- (i) What do you mean by near money ?

- (ii) Define Moral hazard.
- (iii) Money Market Mutual Funds.
- (iv) What do you mean by Bank Rate ?
- (v) Write about overdraft.
- (vi) Write any *two* differences between banks and NBFIs.
- (vii) What is minimum legal reserve ratio ?
- (viii) Discuss *two* objectives of monetary policy.
- (ix) What is meant by selective credit controls ?
- (x) Define Capital Marketing. **2×10=20**

लघु उत्तरीय प्रश्न :

- (i) निकट मुद्रा से आपका क्या अभिप्राय है ?
- (ii) नैतिक जोखिम को परिभाषित कीजिए ।
- (iii) मुद्रा बाजार म्युचुअल फण्ड ।
- (iv) बैंक दर से आपका क्या अभिप्राय है ?
- (v) ओवरड्राफ्ट के बारे में लिखिए ।
- (vi) बैंक तथा गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों में कोई दो अंतर लिखिए ।
- (vii) न्यूनतम कानूनी रिजर्व अनुपात क्या है ?

- (viii) मौद्रिक नीति के दो उद्देश्यों की चर्चा कीजिए ।
- (ix) चयनात्मक साख नियन्त्रणों से क्या अभिप्राय है ?
- (x) पूँजी बाजार को परिभाषित कीजिए ।

Unit I

इकाई I

2. Explain the significance and defects of Money.

15

मुद्रा के महत्त्व व दोषों की व्याख्या कीजिए ।

3. Explain the role of Financial Markets and institutions in economic growth. **15**

आर्थिक वृद्धि में वित्तीय बाजारों एवं संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए ।

Unit II

इकाई II

4. Explain the defects of Indian Capital Market. Give suggestions for its improvement. **15**

भारतीय पूँजी-बाजार के दोषों का वर्णन कीजिए । इसके सुधार के लिए सुझाव दीजिए ।

Unit IV
इकाई IV

8. Define the meaning of monetary policy. Explain the main objectives of it. **15**

मौद्रिक नीति के अर्थ को बताइए । इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए ।

9. What are the instruments of monetary policy ? Explain expansionary and restrictive monetary policies. **15**

मौद्रिक नीति के उपकरण क्या हैं ? विस्तारक एवं प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीतियों का वर्णन कीजिए ।

Unit IV
इकाई IV

8. Define the meaning of monetary policy. Explain the main objectives of it. **15**

मौद्रिक नीति के अर्थ को बताइए । इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए ।

9. What are the instruments of monetary policy ? Explain expansionary and restrictive monetary policies. **15**

मौद्रिक नीति के उपकरण क्या हैं ? विस्तारक एवं प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीतियों का वर्णन कीजिए ।